



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1432]  
No. 1432]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 2007/कार्तिक 29, 1929  
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 2007/KARTIKA 29, 1929

शहरी विकास मंत्रालय  
(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2007

का.आ. 1964(अ).—एकीकृत भवन उप-नियमों के खण्ड 23.16 के प्रावधानों के अनुसरण में, सरकार ने इस संबंध में पहले जारी सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में एक विरासत संरक्षण समिति (एचसीसी) के गठन का अनुमोदन किया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :—

1. अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय —अध्यक्ष
2. अपर डीजी(आर्क), सीपीडब्ल्यूडी —सदस्य
3. केन्द्रीय डिजाइन संगठन, सीपीडब्ल्यूडी में मुख्य अभियंता (स्ट्रक्चर) —सदस्य
4. मुख्य नियोजक, टीसीपीओ —सदस्य
5. मुख्य नगर नियोजक, एमसीडी —सदस्य
6. आयुक्त (आयोजना) डीडीए —सदस्य
7. चीफ आर्किटेक्ट, एनडीएमसी —सदस्य
8. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि —सदस्य
9. श्री डी. एस. मेशराम (शहरी डिजाइनर) —सदस्य

10. श्री जे. पी. जोशी (इतिहासकार) —सदस्य
11. प्रो. ए.जी.के. मेनन (संरक्षण आर्किटेक्चर) —सदस्य
12. प्रो. एम. शाहीर (पर्यावरण) —सदस्य
13. निदेशक, प्राकृतिक इतिहास राष्ट्रीय संग्रहालय (प्राकृतिक इतिहासकार) —सदस्य
14. प्रो. के. टी. रविंद्रन, शहरी डिजाइनर —सदस्य
15. सुश्री गुरमीत एस. राय, निदेशक —सदस्य
16. संयोजन, दिल्ली चैप्टर, आईएनटीएसीएच —सदस्य
17. सचिव, दिल्ली नगर कला आयोग —सदस्य-सचिव

2. समिति का कार्यकाल 9-2-2007 अर्थात् वह तारीख जब पूर्वगठित एचसीसी के कार्यकाल की समाप्ति की तारीख से 2 वर्ष का होगा।

[सं. के-12016/6/2003-डी डी I बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2007

S.O. 1964(E).—In pursuance of the provisions of Clause 23.16 of the Unified Building Bye Laws, the Government has approved the constitution of the Heritage

Conservation Committee (HCC) with the following members in supersession of all Notifications issued earlier in this regard :—

- |  |           |   |                      |
|--|-----------|---|----------------------|
| 1. Additional Secretary, Ministry of Urban Development.                | —Chairman | 10. Shri J. P. Joshi, (Historian)   | —Member              |
| 2. Addl. DG(Arch.), CPWD   | —Member   | 11. Prof. A. G. K. Menon (Conservation Architecture)                        | —Member              |
| 3. Chief Engineer (Structure) in the Central Design Organisation, CPWD | —Member   | 12. Prof. M. Shaheer (Environment)  | —Member              |
| 4. Chief Planner, TCPO   | —Member   | 13. Director, National Museum of Natural History ( Natural History)         | —Member              |
| 5. Chief Town Planner, MCD   | —Member   | 14. Prof. K. T. Ravindran, Urban Designer                                   | —Member              |
| 6. Commissioner (Plg.) DDA   | —Member   | 15. Ms. Gurmeet S. Rai, Director, Cultural Resource Conservation Initiative | —Member              |
| 7. Chief Architect, NDMC   | —Member   | 16. Convener, Delhi Chapter, INTACH   | —Member              |
| 8. Representative of DG, ASI   | —Member   | 17. Secretary, DUAC   | —Member<br>Secretary |
| 9. Sh. D.S. Meshram, (Urban Designer)                                  | —Member   |   |                      |

2. The tenure of the Committee shall be two years with effect from 9-2-2007 *i.e.* the date on which the tenure of the HCC constituted earlier expired.

[No. K. 12016/6/2003-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.